



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 11, 2013/माघ 22, 1934

No. 66]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 11, 2013/MAGHA 22, 1934

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 73(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 से संबंधित परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1976; राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 1988; राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1977 जहाँ तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक-सह-कैशियर, डार्क रूम सहायक, अवर श्रेणी लिपिक और स्टाफ कार ड्राइवर पद से है; राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980 जहाँ तक उनका संबंध तकनीकी रेस्टोरर आशुलिपिक; आशुलिपिक (हिन्दी) और प्रयोगशाला सहायक पद से है; राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1987 जहाँ तक उनका संबंध मरम्मतकर्ता पद से है, राष्ट्रपति, एतद्वारा संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला में सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' पद के लिए भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुप्रयोग.**—ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध सूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि यदि केन्द्र सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवेक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की प्रकृति, क्या सीधी भर्ती द्वारा प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में निम्न परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	बहुकार्य कर्मचारी	नेहरू (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' सचिवीय	वेतन बैंड-1 5200 - 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	आयु, 18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय और पुनः अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु शिथिलनीय है)। टिप्पणी : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई तारीख लागू नहीं होगी) 2. रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख	अनिवार्य : किसी बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानप्रधाना (एनआरएलसी)। 2. अवर सचिव - सदस्य, संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य, एनआरएलसी	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
स्टाफ़ कर चालक साधारण वेड	एक (2012) कार्यवा र के आधार पर परिवर्त न किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ग (अराजपत्रित सचिवीय)	वेतन बैंड- 5200- 20200 रु. + वेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रेषित करने के लिए कहा गया है।	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु सिविलनिय है। टिप्पणी : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख़, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख़ और स्पीति जिला और चंगा जिले का पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई तारीख लागू नहीं होगी) 2. रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रेषित करने के लिए कहा गया है।	अनिवार्य : 1. किसी बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मोटर कार चलाने का वैध अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) धारक हो। 3. मोटर प्रक्रिया-तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन से संबंधित छोटी कमियाँ को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)। 4. किसी प्रसिद्ध संस्थान में कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी ऑटोमोबाइल कार्यशाला में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए 1. परियोजना अधिकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी)। 2. अवर सचिव - सदस्य, संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य, एनआरएलसी	लागू नहीं होता

3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	स्टाफ कार चालक रोड ॥	एक (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित सचिवीय)	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + रोड वेतन 2400 रु.	अचयन पद	आयु, 18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक सिविलनीय और पुनः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु सिविलनीय है)। टिप्पणी : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और अस्म, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और नीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई तारीख लागू नहीं होगी) 2. रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रेषित करने के लिए कहा गया है।	अभिधार : 1. किसी बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मोटर कार चलाने का वैध अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) का धारक हो। 3. मोटर प्रक्रिया तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन से संबंधित छोटी कमियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)। 4. मोटर कार चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी ऑटोमोबाइल कार्यशाला में एक वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता हां।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, असफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्टाफ कार चालक जिसने उस रोड में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो और जिसके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित विहित अनिवार्य योग्यता और अनुभव हो।	1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. तकनीकी विशेषज्ञ - सदस्य 4. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य एनआरएलसी (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांस्कृति सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) 2. अवर सचिव- सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य एनआरएलसी	लागू नहीं होता

4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	अवर श्रेणी लिपिक	चार (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराज्यपन्नि सचिवीय)	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन पद	आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए आयु पांच वर्ष तक शिथिलनीय है। टिप्पणी : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तरीका कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निश्चित की जाएगी। (जहां पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, वहां पर आयु निर्धारण की निर्णायक तरीका आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।)	अतिवार्षिक : 1. किसी बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता। 2. कंप्यूटर पर टंकण-मति अंशों में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द केवल प्रति मिनट, (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी (की) दबाव के औसतन 10500 केडीपीएच / 9000 केडीपीएच के प्रसंग में है।	हा, संलग्न 10 में संदर्भित सीमा तक	दो वर्ष	1. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पचासी प्रतिशत। 2. रिक्तियों का दस प्रतिशत एसएससी के माध्यम से विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर समूह 'ग' के उन कर्मचारियों से भरा जाएगा जो 1800 रु. ग्रेड वेतन में हैं और उन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और वे 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष योग्यता रखते हैं। परीक्षा के लिए आयु की पात्रता 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए आयु पचास वर्ष होगी)। टिप्पणी : यदि खंड (ii) के अधीन, इस परीक्षा में रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी उत्तीर्ण होते हैं तो उन अधिक संख्या वाले कर्मचारियों को बाद के वर्षों में होने वाली रिक्तियों पर विचार करते समय उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा जिन्होंने बाद के वर्षों में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की है। (iii) रिक्तियों का पांच प्रतिशत वरिष्ठता-साह-स्वस्थता के आधार पर प्रोन्नति के माध्यम से समूह 'ग' के उन कर्मचारियों के मध्य से भरा जाएगा जिन्होंने अपने पदों पर 1800 रु. के ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।	पन्द्रह प्रतिशत विभागीय / वरिष्ठ सह-स्वस्थ के आधार पर प्रोन्नति के माध्यम से। 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय संस्कृति सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएससी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य एनआरएससी (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय संस्कृति सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएससी) 2. अवर सचिव- सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य एनआरएससी	लागू नहीं होता	

598 GI/13-2

हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए विचारणीय नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले अधिकारी प्रोन्नति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे।	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें दूसरे संवर्ग बाह्य पद की वह प्रतिनियुक्ति शामिल है जो इस नियुक्ति के ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या केन्द्र सरकार के किसी विभाग में धारित की गई है, सामान्य रूप में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु, प्रारंभिक पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख में छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	टिप्पणी :- प्रतिनियुक्ति/ आमेतन के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (वह तारीख, जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया है) में की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक सेक्टर वेतन / वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा। इसमें केवल वह स्थिति अपवाद है, जहां पर संशोधन पूर्व के एक से अधिक वेतनमानों को एक समान ग्रेड वेतन / वेतनमान में मिला दिया गया है और जहां पर यह लाभ केवल उस पद या उन पदों को प्रदान किया जाएगा, जिन पदों पर वह ग्रेड वेतन/ वेतनमान बिना कोई अन्यथा एक सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।
--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उच्च श्रेणी लिपिक	एक (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजमर्गित सचिवीय)	वेतन बैंड- 5200- 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन पद	आयु 18 से 27 वर्ष के मध्य। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक सिविलीय और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु सिविलीय है।) टिप्पणी : 1. आयु की गणना के लिए निर्णायक तारीख का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा।	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समकक्षा। 2. केवल कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द व हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।	नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, इसमें असफल रहने पर प्रतिनिधित्व द्वारा और इन दोनों में असफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : अवर श्रेणी लिपिक (ग्रेड वेतन 1900 रु.) जिन्होंने इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो। टिप्पणी : जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा को पूर्ण कर लिया है, जो प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों को भी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते, उनकी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा की आयु या दो वर्ष की सेवा में से जो भी कम है, की कमी नहीं होनी चाहिए और उन्होंने सफलता पूर्वक अपनी परीक्षा अवधि को पूरा किया हो। टिप्पणी 1 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की गणना के उद्देश्य से, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर 1 जनवरी, 2006 से पूर्व की गई सेवा या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया है, को सार्वजनिक वेतन / वेतनमान में की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित सेवा समझा जाएगा। प्रतिनिधित्व :- ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थानों/अर्द्धसरकारी / स्वायत्त संगठनों की सेवा में (i) नियमित आधार पर समान पद धारण करते हैं, या (ii) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष पद पर इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा 1800 ग्रेड वेतन सहित पूर्ण कर ली हो। फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ - सदस्य विशेषज्ञ 4. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान शाला (एनआरएलसी) (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) 2. अवर सचिव - सदस्य, संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा अनुसंधान शाला (एनआरएलसी)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उच्च श्रेणी लिपिक-सह-रोकडिया	एक (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपक्षित सचिवीय)	वेतन बैंड- 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन पद	आयु, 18 से 27 वर्ष के मध्या (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु शिथिलनीय है।)	अतिरिक्त : i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समकक्षा। ii. केवल कंप्यूटर पर अंजी में 35 शब्द या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। बैकनीय : सरकारी विभाग के सेवा अनुभाग और स्थापना अनुभाग में दो वर्ष का कार्यानुभव।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, इसमें असफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों में असफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : अवर श्रेणी लिपिक (ग्रेड वेतन 1900 रु.) जिन्होंने इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो। दृष्टव्य : जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा को पूर्ण कर लिया है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है तो उनसे श्रेष्ठ कर्मचारियों का भी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते, उनकी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा की आयु या दो वर्ष की सेवा में से जो भी कम है, की कमी नहीं होनी चाहिए और उन्होंने सफलता पूर्वक अपनी परीक्षा अवधि को पूरा किया हो। दृष्टव्य 1 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की गणना के उद्देश्य से, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर 1 जनवरी, 2006 से पूर्व की गई सेवा या वह तरीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया है, को सार्वजनिक वेतन / वेतनमान में की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित सेवा समझा जाएगा। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान /अर्द्धसरकारी / स्वायत्त संगठनों की सेवा में (i) नियमित आधार पर समान पद धारण करते हैं, या (ii) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष पद पर इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा 1800 ग्रेड वेतन सहित पूर्ण कर ली हो। फीवर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	1. परियोजना अधिकारी - अच्युत राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ - सदस्य विशेषज्ञ 4. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला, (एनआरएलसी) (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अच्युत राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा अनुसंधान शाला (एनआरएलसी)	लागू नहीं होता

548 GI/13-3

हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए विचारणीय नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले अधिकारी प्रोन्नति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे।	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें दूसरे संवर्ग याच्य पद की वह प्रतिनियुक्ति शामिल है जो इस नियुक्ति के ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या केन्द्र सरकार के किसी विभाग में धारित की गई है, सामान्य रूप में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु, प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख में छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	टिप्पणी :- प्रतिनियुक्ति/ आमोलन के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (वह तारीख, जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया है) की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक रोड वेतन / वेतनमान में की गई सेवा सम्मिलित जाएगा। इसमें केवल वह स्थिति अपवाद है, जहां पर संशोधन पूर्व के एक से अधिक वेतनमानों को एक समान रोड वेतन/ वेतनमान में मिला दिया गया है और जहां पर यह लाभ केवल उस पद या उन पदों को प्रदान किया जाएगा, जिन पदों पर वह रोड वेतन/ वेतनमान बिना कोई उन्नयन एक सामान्य प्रतिस्थापन रोड है।
--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	आधु- लिपिक रेड II	एक (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह या (अराज्यपन्नि सचिवालय)	घेतन ईड-1 5200- 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	आधु 18 से 27 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए आयु पांच वर्ष तक शिथिलनीय है)। टिप्पणी : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।	अनिर्धारित : i. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण। ii. दक्षता-परख मानक : 80 शब्द प्रति मिनट की दर से कुलसेख 10 मिनट का श्रुतलेख (अंग्रेजी) में 50 मिनट प्रति शब्द और (हिन्दी) में 65 शब्द प्रति मिनट प्रतिसेखन केवल कंप्यूटर पर।	लागू नहीं होता।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। टिप्पणी :- ऐसी स्थितियों जो पदों के लाभार्थियों द्वारा प्रतिनियुक्तियों पर रहने या बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश पर रहने या किसी अन्य परिस्थितियों के अर्थान, एक वर्ष या उससे अधिक समय से रिक्त हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों द्वारा भरा जा सकता है जो नियमित आधार पर समान पद धारण करते हैं और स्तम्भ 8 में निर्धारित सीधी भर्ती की अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं।	लागू नहीं होता	(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय संस्कृतिक सम्यदा संरक्षण अनुसंधानशाखा (एनआरएलसी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य राष्ट्रीय संस्कृतिक सम्यदा अनुसंधानशाखा (एनआरएलसी)	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आयु - सिपिक रोड II (हिन्दी)	एक (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ग (अराजपत्रित सचिवीय)	वेतन बैंड- I 5200 -20200 रु. + रोड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए आयु पांच वर्ष तक शिथिलनीय है)। टिप्पणी : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तरीका कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।	अतिवर्ष : I. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण। II. दशता-परब मानक : 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल्लेख 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी) में प्रतिलेखन केवल कंप्यूटर पर।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। टिप्पणी : ऐसी स्थितियों जो पदों के लाभार्थियों द्वारा प्रतिनियुक्तियों पर रहने या बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश पर रहने या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन, एक वर्ष या उससे अधिक समय से रिक्त हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों द्वारा भरा जा सकता है जो नियमित आधार पर समान पद धारण करते हैं और स्तर 8 में निर्धारित सीधी भर्ती की अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं।	लागू नहीं होता	(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय संस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएससी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य राष्ट्रीय संस्कृतिक सम्पदा अनुसंधानशाला (एनआरएससी)	लागू नहीं होता।

9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बहुकार्य कर्मचारी (प्रयोगशाला सहायक)	सात (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अनुसूचित)	बैतन बैंड-1 5200 - 20200 ₹ + बैंड बैतन 1800 ₹	लागू नहीं होता	आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक स्थितिलेखीय और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु स्थितिलेखीय है।) टिप्पणी : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई तारीख लागू नहीं होगी) 2. रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रेषित करने के लिए कहा गया है।	अभिचार : आईआईए उत्तीर्ण या 1. किसी बोर्ड/ संस्था से विज्ञान विषयों सहित मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संगठन/ संस्थान में संरक्षणशाला/संस्थालय/ पुरातत्व/ अभिलेखागार में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हो या काष्ठ-कला अथवा जिल्दकारी में कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। टिप्पणी : - उम्मीदवार के अन्यथा सुयोग्य होने पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है। 2. अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है, यदि, किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी के विचार में यह स्पष्ट होता कि इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर पर्याप्त संख्या की शक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की आशा नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीपी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएससी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा अनुसंधानशाला (एनआरएससी)	लागू नहीं होता	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बहुकार्य कर्मचारी (प्रयोगशाला सहायक)	दो (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अनुसूचित)	वेतन बैंड-1 5200- 20200 रु. + ग्रेड देन 1800 रु.	लागू नहीं होता	आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु शिथिलनीय है।) टिप्पणी : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई तारीख लागू नहीं होगी) 2. रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम होगी तारीख जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रेषित करने के लिए कहा गया है।	अतिवार्ध :- किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से विज्ञान विषयों सहित मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा विज्ञान विषयों सहित उत्तीर्ण और पुस्तकालय सूचना में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या किसी बोर्ड / संस्था से मैट्रिकुलेशन परीक्षा विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण और किसी उत्कृष्ट राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय या संबंधित संस्था में कम से कम दो वर्ष का कार्यभार। टिप्पणी :- 1. उम्मीदवार के अन्यथा सुयोग्य होने पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है। 2. अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है, यदि, किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी के विचार में यह स्पष्ट होता कि इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए आश्रित पदों की पर्याप्त संख्या में रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की आशा नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएससी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा अनुसंधान शाला (एनआरएससी)	लागू नहीं होता	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	संस्कृत - गौर	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ग (आराजपति अनुसूचित)	वैतन ईड-1 5200-20200 रु. + बेंड वैतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	आयु, 18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक सिविलियन और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु सिविलियन है।) टिप्पणी : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख, भारत में उन्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का संघात खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले का पानी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या त्वाद्वीप में रहने वाले उन्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई तारीख लागू नहीं होगी। रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रेषित करने के लिए कहा गया है।	अभिवाही :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सायनशास्त्र विषय सहित बी.एस.सी. या समकक्ष उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संहित कलाओं में उपाधि या समकक्ष उपाधि। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में सांस्कृतिक सम्पदा से संबंधित छह माह का प्रशिक्षण।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) 2. अवर सचिव - सदस्य सांस्कृतिक मंत्रालय 3. समूह क अधिकारी - सदस्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा अनुसंधान शाला (एनआरएलसी)	लागू नहीं होता

12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रयोगशाला सहायक	दो (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराज्यपकित, अनुसूचित)	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं	आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक स्थितिलनीय और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु स्थितिलनीय है।)	अनिवार्य :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. की उपाधि जिसमें रसायनशास्त्र एक विषय के रूप में लिया गया हो। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में सांस्कृतिक सम्पदा से संबंधित छ. माह का प्रशिक्षण।	लागू नहीं	दो वर्ष	सौधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा अनुसंधान-शाला (एनआरएलसी)	लागू नहीं होता	
						<p>टिप्पणी :-</p> <p>1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तरीका, भारत में उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागलैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तरांचल प्रदेश का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई तारीख लागू नहीं होगी)।</p> <p>रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख यह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रेषित करने के लिए कहा गया है।</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तकनीकी रेस्टोरर	आठ (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य कैन्द्रीय समूह 'ग' (अराजकपत्रित, अननुसुचित)	मूल्य रु. + 5200 - 20200 रु. केड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलीय और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु शिथिलनीय है)। टिप्पणी : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख, भारत में उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई तारीख लागू नहीं होगी)। रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रेषित करने के लिए कहा गया है।	अतिरिक्त : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण स्नातकोत्तर उपाधि। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तलित कलाओं में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण में छ. माह का प्रशिक्षण। या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तैल-चित्र/भित्ति चित्र / लघु चित्र और व्यापक पांडुलिपि / अभिलेखीय सामग्री/ धातुओं / प्रस्तर और सिरेमिक्स आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र में कम से कम चार माह का प्रशिक्षण। टिप्पणी :- सन्त्यक रूप में अपेक्षित योग्यताओं और अनुभव का स्पष्टीकरण भर्ती के समय पर किया जाएगा।	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी :- ऐसी स्थितियां जो पदों के लाभार्थियों द्वारा प्रतिनियुक्तियों पर रहने या बीमारी या अध्ययन अवकाश पर रहने या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन, एक वर्ष या उससे अधिक समय से रिक्त हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों द्वारा भरा जा सकता है जो नियमित रूप में समान पद धारण करते हैं और स्तम्भ 7 में निर्धारित की गई सीधी भर्ती की अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं।	लागू नहीं	(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) 2. अवर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह 'क' अधिकारी - सदस्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा अनुसंधान शाला (एनआरएलसी)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	डार्क रंग सहायक (2012) कर्मचार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजकवित्त, अननुसूचितवर्ग)	वेतन बैंड- 5200 - 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लगू नहीं	आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक विधिलिप्य और पुनः अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए पांच वर्ष तक आयु विधिलिप्य है।) दिप्यन्ती : 1. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, (और उसमें, केंद्रालय, अस्पताल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लड़ाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या समद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई तारीख लागू नहीं होगी।) रोजगार कर्वालिय द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कर्वालिय से नाम प्रेषित करने के लिए कहा गया है।	अतिरिक्त :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फोर्टोयाफी में डिप्लोमा/ प्रशिक्षण पठ्यक्रम या किसी सरकारी/ अर्ध सरकारी विभाग या संगठन या सहयोगी संगठन में फोर्टोयाफी और डार्क रंग कार्य का लगभग 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें फोटो का संवर्धन, विकास और प्रिंटिंग कार्य सम्मिलित है।	लगू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लगू नहीं	(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) 1. परियोजना अधिकारी - अद्यतन राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाखा (एनआरएलसी) 2. उबर सचिव - सदस्य संस्कृति मंत्रालय 3. समूह के अधिकारी - सदस्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा अनुसंधानशाखा (एनआरएलसी)	लगू नहीं होता

[फा. सं. 8-25/2011-एम. II.]

डॉ. बी. वेणु, संयुक्त सचिव

548 GI/13-5

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2013

G.S.R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and in supersession of the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (General Central Service Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1976; the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988; the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1977 in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk-cum-Cashier, Dark Room Assistant, Lower Division Clerk and Staff Car Driver; the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the posts of Technical Restorer, Stenographer, Stenographer (Hindi), and Laboratory Assistant; the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1987 in so far as they relate to the posts of Repairer, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to General Central Service Group 'C' posts in the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property under Ministry of Culture, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(i) These rules may be called National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow (General Central Service Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2012.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed with these rules.

3. **Number of Posts, Classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.**—None in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Number of post.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Classification.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pay band and grade pay/pay scale.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Whether selection post or non-selection post.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age limit for direct recruits.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Multi-Tasking Staff.		*Thirteen (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Ministerial.	Pay band-I Rs. 5200-20200 Plus grade pay Rs. 1800.	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five years as in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe).	<u>ESSENTIAL:</u> Matriculation or *equivalent Pass from recognised Board or institution	Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(For considering Confirmation) 1. Project Officer National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary Ministry of Culture. 3. A Group 'A' Officer NRLC	Not applicable.

Note:

- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt for applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangong Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	*One (2012) *Subject to variation depending upon workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Ministerial)	Pay band-I Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe).	ESSENTIAL: 1. Matriculation or equivalent Pass from recognised Board or Institution. 2. Possession of a valid driving license for motor cars. 3. Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles). 4. Experience of driving a motor car for at least three years from reputed organisation. DESIRABLE: One year experience in an Automobile Workshop.	Not applicable	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	(For considering Confirmation) 1. Project Officer National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC) 2. Under Secretary Ministry of Culture, A Group 'A' Officer NRLC 3. Member	Not applicable.
2. Staff Car Driver Ordinary Grade.					<p><u>Note:</u></p> <p>1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt for applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>2. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3. Staff Car Driver Grade II.	*One (2012) to variation depending upon workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-I Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400.	Non-selection.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five years as in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe).	<p>ESSENTIAL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriculation or equivalent Pass from recognised Board or Institution. 2. Possession of a valid driving license for motor cars. 3. Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles). 4. Experience of driving a motor car for at least 5 years. <p>DESIRABLE:</p> <p>One year experience in an Automobile Workshop.</p>	Age: No - F.O.: Yes	Two years.	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Staff Driver, having at least eight years regular service in the grade and having the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Project Officer National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC) 2. Under Secretary, Ministry of Culture. 3. Technical Expert A Group 'A' Officer NRLC 4. Project Officer National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC) 5. Under Secretary, Ministry of Culture. 6. A Group 'A' Officer NRLC 	<p>- Chairman - Not applicable</p> <p>- Member - Member</p> <p>- Member - Member</p> <p>- Member - Member</p>

548 GI/13-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4. Lower Division Clerk.	*Four (2012) *Subject to variation depending upon workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-I Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable up to fourty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe).	ESSENTIAL: 1. 12 th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University 2. A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi only on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. corresponds to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 15 key depression for each word) Note: The crucial date for determining the age limit shall be fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)	Yes, to the extent indicated in Column 10.	Two years.	(i) Eightyfive percent by direct recruitment through Staff Selection Commission(SSC) (ii) Ten percent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12 th Class or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of promotion through departmental qualifying examination through SSC. The maximum age limit for eligibility for examination is fortyfive years (fifty years of age for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe). Note: - If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (i) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualified at a later examination. (iii) Five percent of the vacancies shall be filled via promotion on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800.	Fifteen percentage through promotion via departmental examination n/seniority-cum-fitness basis.	1. Project Officer -Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC) 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. Technical Expert - Member A Group 'A' 4. Officer of NRLC (For Considering Confirmation): 1. Project Officer -Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. A Group 'A' - Member Officer of NRLC	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	Upper Division Clerk.	*One (2012) *Subject to variation depending upon workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial).	Pay band-I Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400.	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe). Note: The crucial date for determining the age limit shall be fixed by the Staff Selection Commission.	(i) Degree of a recognized University or equivalent (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi only on computer.	Two years.	By Promotion, failing which by Deputation failing both by direct recruitment.	Promotion: Lower Division Clerks (Grade Pay Rs. 1900) with eight years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 1: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government/State Government/Public Sector Undertaking/Universities/Research Institutions/Semi-Government/Autonomous Organisations. (i) holding analogous post on regular basis, or (ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerks or equivalent with grade pay Rs.1800.	1. Project Officer - Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. External Technical - Member Expert 4. A Group 'A' - Member Officer of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). (For Considering Confirmation): 1. Project Officer - Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. A Group 'A' - Member Officer of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC).	No applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										<p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding fifty-six years' as on the [closing date of receipt of applications.</p> <p>Note:</p> <p>For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
6.	Upper Division Clerk-cum-Cashier.	*One (2012) *Subject to variation depending upon workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial).	Pay band-I Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400.	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe). <u>Note:</u> The crucial date for determining the age limit shall be fixed by the Staff Selection Commission.	<u>ESSENTIAL:</u> (i) Degree of a recognized University or equivalent. (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi only on computer. <u>DESIRABLE:</u> About two years experience in Accounts & Establishment work in Government Department.	Not applicable.	Two years.	By Promotion, failing which by deputation failing both by direct recruitment	Promotion: Lower Division Clerks (Grade Pay Rs. 1900) with eight years' regular service in the grade. <u>Note:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. <u>Note 1:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. <u>Deputation:</u> Officers of the Central Government/State Government/Public Sector Undertaking/Universities/Research Institutions/Semi-Government/Autonomous Organisations. (i) holding analogous post on regular basis; or (iii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerks or equivalent with grade pay Rs. 1800.	1. Project Officer - Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. External Technical - Member Expert 4. A Group 'A' - Member Officer of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). (For Considering Confirmation): 1. Project Officer - Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. A Group 'A' - Member Officer of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC).	No applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										<p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note:</p> <p>For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7. Stenographer Grade II.	*One (2012) *Subject to variation depending upon workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial).	Pay band-I Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400.	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe).	(i) 12th class or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill Test Norms: Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m Transcription: 50 mts. (Eng), 65 mts. (Hindi) only on computer.	Not applicable.	Two years.	Direct Recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column 8.	Not applicable.	(For Considering Confirmation) 1. Project Officer - Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. A Group 'A' - Member Officer of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC).	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	Stenographer Grade II (Hindi).	*One (2012) *Subject to variation depending upon workload.	General Central Service Group 'C' (Non- Gazetted, Ministerial.	Pay band-I Rs. 5200- 20200 plus grade pay Rs. 2400.	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable up to four years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe).	(i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill Test Norms: Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m Transcription: 50 mts. (Eng). 65 mts. (Hindi) only on computer.	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column 8.	(For Considering Confirmation) 1. Project Officer -Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. A Group 'A' - Member Officer of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC).	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Multi-Tasking Staff. (Laboratory Attendant)	*Seven (2012) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-ministerial.	Pay band-I Rs. 5200 - 20200 plus grade pay Rs. 1800.	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribes)	<p>ESSENTIAL</p> <p>ITI Pass</p> <p>OR</p> <p>1. Matriculation or equivalent Pass with Science subjects from board/institution; and</p> <p>2. having minimum one years' experience in a Conservation Laboratory/ Museum/Archaeology/ Archives from recognized organisation/institution</p> <p>Or</p> <p>having minimum one years' experience as Carpenter or Book Binder</p> <p>Note:</p> <p>1. Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	No applicable.

548 GZ/13-8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Multi-Tasking Staff (Library Attendant)	General Central Service Group 'C' Non-ministerial.	Pay band-I: Rs. 5200 - 20200 plus grade pay Rs. 1800.	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five years as in the case of Scheduled, Caste/Scheduled Tribe).	<p>ESSENTIAL: Matriculation with Science subjects; or equivalent Pass with Science subjects; and a Certificate Course in Library Information Science from a recognised institution or board.</p> <p>OR</p> <p>Matriculation or equivalent from Board/Institution Pass with Science subjects; and having minimum two years' experience in a Library or related Institution of National level of excellence.</p> <p>Note: 1. Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	<p>(For Considering Confirmation)</p> <ol style="list-style-type: none"> Project Officer - Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). Under Secretary - Member Ministry of Culture. A Group 'A' Officer - Member of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 	Not applicable.
					<p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt for applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangri Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>							

548 GI/13-9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II. Repairer.	*Two (2012)	General Central Service Group 'C'	Pay band-I Rs. 5200 - 20200 plus grade pay Rs. 2400.	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe).	ESSENTIAL: (i) B.Sc. Degree of a recognized University with Chemistry as one of the subject or equivalent Or Degree in fine Arts of a recognized University or equivalent. (ii) Six month's training in Conservation of Cultural Property from a recognised institution.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	(For Considering Confirmation) 1. Project Officer - Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. A Group 'A' Officer - Member of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC).	Not applicable.

Note:
The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt for applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12.	Laboratory Assistant	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-ministerial.	Pay band-I Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400.	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age.	<p>ESSENTIAL:</p> <p>(i) B.Sc. Degree or equivalent from a recognized University with Chemistry as one of the subject.</p> <p>(ii) Six month's training in Conservation of Cultural Property from a recognised Institution.</p>	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	<p>(For Considering Confirmation)</p> <p>1. Project Officer - Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC).</p> <p>2. Under Secretary - Member Ministry of Culture.</p> <p>3. A Group 'A' Officer - Member of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC).</p>	Not applicable.
					<p>(Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt for applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lachadweep).</p> <p>In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13. Technical Restorer.	*Light (20/2)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-ministerial	Pay band-I Rs. 5200 - 20200 plus grade pay Rs. 2800.	Not applicable.	(6) Between 18 and 25 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt for applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	ESSENTIAL: 1. Master Degree in Conservation of Cultural Property from a recognised University. OR Master Degree in Science or equivalent from a recognised University with Chemistry as one of the subject at graduate level. OR Master Degree in Fine Arts or equivalent from a recognised University. 2. Six month's training in Conservation of Cultural Property from a recognised Institution. OR At least four months training from a recognised Institution in a specialised field like Conservation of Oil Paintings/Wall Paintings/Miniature Paintings & Illustrated Manuscripts/Archival materials/Metals/ Stone & Ceramics etc. Note: The exact qualifications and experience required shall be specified at the time of recruitment.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column 7.	Not applicable.	(For Considering Confirmation) 1. Project Officer - Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. A Group 'A' Officer - Member of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC).	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14. Dark Room Assistant	*One (2012) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-ministerial	Pay band-I Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable up to forty years for Government Servants in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt for applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamla district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	<u>ESSENTIAL:</u> (1) Degree of a recognized University or equivalent. (2) Diploma/Training Course in Photography from a recognised institution. Or About 3 years practical experience of Photography and dark room work including developing, enlarging and printing in Government/Semi-Government or Department or organisation or concern.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	(For Considering Confirmation) 1. Project Officer - Chairman National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC). 2. Under Secretary - Member Ministry of Culture. 3. A Group 'A' Officer - Member of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC).	Not applicable.

[F. No. 8-25/2011-M. II]

Dr. V. VENU, Jr. Secy.